

August 19, 2021

The Secretary, Asst. Vice President,

BSE Limited National Stock Exchange of India

Corporate Services Department, Listing Department,

Phiroze Jeejeebhoy Towers, "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex,

Dalal Street,
Mumbai-400001

Bandra (East), Mumbai-400051

Scrip Code: 532529 Scrip Symbol: NDTV

Subject: Submission of newspaper publication

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith newspaper publication for notice regarding 33rd Annual General Meeting of the Company published in Hindi & English language on August 19, 2021.

Please take the above information on your record.

Thanking you

Yours sincerely,

For New Delhi Television Limited

TANNU Digitally signed by TANNU SHARMA

SHARMA Date: 2021.08.19
18:19:52 +05'30'

(Tannu Sharma)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above

Place: Delhi

Date: 18.08.2021

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

Regd. office: 516, Suneja Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi-110058 E-mail: compliancesdfl@gmail.com; Website: www.somdattfin.com CIN: L65921DL1993PLC377542

The Public notice is hereby given that pursuant to Regulation 5 and 6 of the SEB (Delisting of Equity shares) Regulations, 2021 and other applicable regulations, if any, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Thursday, 24th June, 2021 approved, inter alia, a proposal for voluntary delisting of the Company's Equity Share from The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE").

To save recurring expenditure on listing fees payable to CSE, and to mainly reduce the administrative work and thus saving the related cost and there has been no trading of the Equity Shares of the Company at CSE. Under Regulation 5 and 6 of the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, the Equity shares of the Company can be delisted from CSE without giving any exit opportunity to the equity shareholders as the Equity Shares of the Company will continue to be listed on Bombay Stock Exchange (BSE) which is having nationwide trading terminals.

There will be no change in the capital structure of the Company after the delisting of the Equity shares from the CSE. The delisting of Equity shares from the CSE will not adversely affect the investors.

For SomDatt Finance Corporation Limited

Sandip Kumar Chaubey Company Secretary

MILESTONE GLOBAL LIMITED

CIN: L93000KA1990PLC011082 Reg. Off.: No 54-B, Hoskote Industrial Area (KIADB), Chintamani Road, Hoskote - 562 114, Karnataka. Telephone: 080 27971334 Website: www.milestonegloballimited.com

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Members are informed that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 25th September, 2021 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC). In compliance with General Circular Numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the 31st AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of AGM.

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and the Annual Report 2020-2021 have been sent to all the members whose email Id's are registered with the Company's RTA/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.milestonegloballimited.com and on stock exchange website.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut off date (18th September, 2021), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system of CDSL(remote e-voting). Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM (e-voting). The manner of attending AGM via VC and voting remotely and during the AGM, for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the instructions provided with the Notice of AGM.

The Cut off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system during AGM shall be 18th September, 2021. The remote e-voting shall commence on Wednesday, 22nd September, 2021(09:00 a.m. IST) and will end on Friday, 24th September, 2021 (05:00 p.m. IST) for all the shareholders whether holding shares in dematerialized mode or physical mode. The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The members who have not casted their votes via remote e-voting facility, can cast their votes at the AGM through the e-voting system available during the AGM. Once the votes on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM.

A person who has acquired the shares and has become member of the Company after the emailing of AGM notice and is holding shares as on the cut off date i.e. 18th September, 2021, will be eligible to participate at the AGM and also e-voting (both remote e-voting and e-

Pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the relevant Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 19th September, 2021 to 25th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Company has appointed Mr. M Jagadeesh, a Laywer to act as Scrutinizer for

conducting the remote e-voting and e-voting system during the AGM, in a fair and If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-

Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed

to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

Date: 19.08.2021 Place: Bangalore

Sd/- (Anita Rawat) Company Secretary

For Milestone Global Limited

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED Registered Office:- B-40, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 CIN: L74899DL1994PLC059950 Tel: 011-41610121 Fax: 011-41058461

REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the Shareholders of the Company scheduled to be held on Friday 17th September, 2021 at 11:00 A. M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio- Visual Means ("OAVM") facility, to transact the Business

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA" hasvide its circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020 and April 13, 2020 respectively in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by Covid-19", circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 in relation to "Clarification on holding of annual general meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) and Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 in relation to "Clarification on holding of annual general meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio visua means(OAVM)" (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Boardof India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12 2020 in relation to "Additional relaxation in relation to compliance with certain provisions o SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 - Covid-19 pandemic" and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 i relation to "Relaxation from compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 due to the COVID -19 pandemic* (collectively referred to as "SEBI Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the AGM of the members of the Company is being held through VC / OAVM. The registered office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 12 May 2020, Notice of AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website www.pushpsons.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

In case you have not registered mail id with the Company/Depositories, please follow below instruction to register your mail ID for obtaining Annual Report for FY 2020-21 and login details for e-voting:

- > In case the shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to beetalrta@gmail.com) or info@pushpsons.com.
- In case shares are held in demat mode, please provide DP ID and Client ID, Name, Copy of Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card) and AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to beetalrta@gmail.com or info@pushpsons.com.

The Shareholders are requested to contact their Depository Participants for registration of Email ID as per the process provided by DP.

The procedure to join the meeting through VC/OAVM is provided in the notice of AGM. The members are further informed that

- a) The ordinary business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- b) The remote e-voting of the shareholders shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, 10th September, 2021 being the cut-off date for this purpose. Shareholders of the Company holding shares either in physical or dematerialized form on the said cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- c) The remote e-voting period commences on Tuesday, 14th September, 2021 at 10:00 A.M. and ends on Thursday, 16th September, 2021 at 5:00 P.M. and shall not
- d) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. 10th September, 2021 may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining the user ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and CDSL's website. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote through remote e-voting.
- Details of the manner of casting remote e-voting is available to the annexure of the notice for 27th AGM, which is also posted on the website of the Company viz. www.pushpsons.com and on the website of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) the remote e-voting agency viz., www.evotingindia.com.
- f) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com. Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Reg. 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 11th September, 2021 to Friday, 17th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of annual closure of Books.

Place: Delhi

Date: 18.08.2021

financia

For Pushpsons Industries Limited

Pankaj Jain Director DIN: 00001923 Resi. Add.: E-16, Lane W-4, Sainik Farms, Delhi-110062 Place: Panchkula

NOTICE REGARDING LOST SHARE CERTIFICATE(S) OF TAMILNADU PETROPRODUCTS LIMITED

I SRINIVASAN S residing at Flat no. RUBY 4M, OLYMPIA OPALINE SEQUEL, 33 RAJIV GANDHI SALAI, NAVALUR - 600130 the registered holder(s) of the under mentioned shares held in M/s.TAMILNADU PETROPRODUCTS LIMITED hereby give notice that the share certificate(s) in respect of the said shares have been lost and I have applied to the Company for issue of duplicate

Any person having claim in respect of the said shares should lodge such claims with the Company at its Registered Office at MANALI EXPRESS HIGHWAY, MANALI, CHENNAI – 600068, within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) and no further claim will be entertained by the Company thereafter.

Folio No. 00168726 Certificate No. 347295 Distinctive Nos. 70262888-70262987 No. of shares - 100 Place : Chennai

Name of the registered holde ŠRINIVASAN S

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN No. L40101HP1988GOI008409

Date: 18.08.2021

Corrigendum to e-Tender No.: DCB-CCD-SDHEP-430-01

Online bids (e-tender) on Domestic Competitive Bidding (DCB) basis were invited by SJVN for EPC Contract package covering Design & Engineering Services, Civil and Hydro-Mechanical works of Sunni Dam Hydroelectric Project (382 MW) in Distt. Shimla and Mandi, Himachal Pradesh. In said tender, Clause no. 5.5.4 (Minimum Qualifying Requirements for HM works)' in Volume-1. Sections-2, ITB of Bid Documents has been modified and revised Bid Documents have been uploaded on the websites www.sjvn.nic.in, https://sjvn.abcprocure.com & www.eprocure.gov.in. Last date for bid submission is 07.09.2021 (1300 Hrs). **HOD (Civil Contracts)**

SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla -171006 (H.P.) e-mail: civilcontract@sjvn.nic.in.

NOTICE

Notice is hereby given that the following Share certificates of M/s Reliance Industries Limited having Registered Office at Maker Chambers IV, 3rd Floor, No. 222, Nariman Point Mumbai-400021, which are Registered in / our following names as given below has/have been Lost without transfer Deed by me / us. Since I / we have purchased & are Holding these shares & the same are not traceable at our end. I / We have applied for issue of Duplicate of the Share | Shares | Cort Nos | Diet Nos | Diet Nos

Number	holder	Snares	Cert. Nos.	From	To
004951344	Mrs. SUSHILAJ MEHTA Jointly with JAYANTILAL JETHALAL MEHTA	80	1131891	26682731	26682738
	eden in about the section	21	2266671	44443496	44443516
	like .	05	3207618	50160463	50160467
		20	5157777	84835945	84835964
	i.	14	6499051	136833178	136833191
		14	10554306	188735529	188735542
	// 22	50	53705003	1258117244	1258117293
		18	53705004	1258117294	1258117311
	O THE THE THE TANK	14	53705005	1258117312	1258117325
003356281	Mr. Bipin Kumar J Mehta jointly with Mrs. Rekha B Mehta	14	1006146	25241027	25241040
032793304	Rachana Khanna	50	53654886	1256683610	1256683659
032793304	Rachana Khanna	24	53654887	1256683660	1256683683

So, General public are hereby warned not to deal with the Above securities and if company do not receive any objection within 15 Days from the date of publication of this Notice on the above mentioned Regd. Address of the company or to the Company's R&T Agent M/s K.Fintech Pvt Ltd, Selenium Towers-B, Financial District, Nanakramguda, Plot No -31 & 32 Road No-1, Gachibowli, Hyderabad-500032, Telengana, The Company will proceed for the issue of Duplicate share Certificate(s) in our / Above Name.

Place: Chennai - TamilNadu

Bipin Kumar J Mehta No. 5, Vardharjulu Street, Egmore Chennai - 600008

PEOPLES INVESTMENTS LIMITED

Registered Office: New Hind House, 3, Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001 Tel.: 022-22686000 Fax: 022-22620052 Email: peoplesinvestments@rediffmail.com Website: www.pplsinvestments.com

INFORMATION REGARDING 45th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

NOTICE is hereby given that the Forty Fifth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Peoples Investments Limited ("the Company") will be held on Monday, September 27, 2021 at 3,30 P.M. (IST) through two-way VC/OAVM facility in compliance with all the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), to transact business set forth in the Notice of the AGM.

In compliance with the above Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for Financial Year 2020-21 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited ("the Depositories"). A copy of this Notice along with the Annual Report for Financial Year 2020-21 will also be available on the Company's website www.pplsinvestments.com website of the Stock Exchange i.e. The BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

Manner of registering/updating email address:

- In case the Member's e-mail ID is already registered with the Company/Link Intime India Private Limited ("LIIPL") ("Registrar and Transfer Agent")/the Depositories, details for e-voting shall be sent on the registered email address.
- In case the Member holding shares in physical mode has not registered his/her e-mail address with the Company/LIPL/the Depositories, he/she/it may do so by sending a duly signed request letter to LIIPL by providing Folio No. and Name of shareholder at LIIPL, (UNIT: Peoples Investments Limited), C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400063 or send a scanned copy. of the signed request letter through e-mail to mt.helpdesk@linkintime.co.in
- In case Shares are held in Demat mode, the Members may contact the Depository Participant ("DP" and register their email address in their Demat account as per the process advised by their DP.

remotely or during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and who have not registered their email addresses will be provided in the Notice convening the AGM. The above information is being issued for the benefit of all the Members of the Company in compliance with the Circulars. This information is also available on the website of Stock Exchange a

www.bseindia.com , on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on Company's website

For further information, Members may contact LIPL quoting the Folio Number/DP ID and Client ID at: Link Intime India Private Limited

(UNIT: Peoples Investments Limited)

C-101, 247 Park L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083

Email: mt.helpdesk@linkintime.co.in

For Peoples Investments Limited

Date: August 18, 2021 Place: Mumbai

Suma G. Nair Directo DIN: 07100911



NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE (1) Annual General Meeting (AGM)

a) Notice is hereby given that AGM will be convened on 20th September, 2021 at 11.30 am through video conferencing ("VC")/ other audio visual means ("OVAM") facility in compliance with relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the Ordinary and Special business, as set out in the notice of the AGM

 b) In compliance with the MCA and SEBI Circulars & Regulations, the requirement of sending the physical copy of AGM Notice and Annual Report to members has been dispensed with and hence, the AGM Notice, Annual Report 2020-21 including financial statements (along with Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached herewith), have been sent only through electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent ("RTA") or the respective Depository Participants. Members may note that the AGM Notice and the Annual Report 2020-21 are also available on the Company's website at www.venusemedies.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

- The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited as the authorized agency for conducting of the AGM through VC/OAVM facility and for providing electronic voting (e-voting) facility to its members, to exercise their votes through the remote e-voting and e-voting at the AGM. d) In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of the members has been
- dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the members under Section 105 of the Act, will not (2) E-Voting: a) Notice is hereby given that the members holding shares either in physical form or in
- dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 13th September, 2021, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) through
- b) The e-voting shall commence on 17th September, 2021 at 9:00 a.m. and shall end on 19th September, 2021 at 5:00 p.m. c) Members may note that the e-voting module shall be disabled by the LIIPL after the
- aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. d) Only those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to
- vote through Instameet at the AGM. e) Any person who acquire shares of the Company after dispatch of notice of AGM but on or before the cut-off date i.e. 13th September, 2021, may obtain the User ID and Password by sending a request at birendra.singh@linkintime.co.in.
- Kindly refer notice of 32nd Annual General Meeting for detailed instruction on attending AGM and e-voting process.
- g) The grievances connected with the e-voting may be addressed to Mr. Swapan Kumar Naskar, M/s Link Intime India Pvt Ltd., Ph-91 11 49411000.

Notice is hereby given that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from 14th September, 2021 to 20th September, 2021 (both days inclusive).

Date: 18.08.2021 VENUS REMEDIES LIMITED

Regd. Office: SCO 857, Cabin No. 10, 2" Floor, NAC Manimajra, Chandigarh (U.T.) 160101, India Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-1, Panchkula, Haryana - 134113, India CIN: L24232CH1989PLC009705, Phone: 0172-2933090, 2933094

Email: complianceofficer@venusremedies.com, Website: www.venusremedies.com

For Venus Remedies Limited Sd/- Company Secretary

By order of Board of Directors

VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM") NOTICE is hereby given that the Forty Seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Polar Investments Limited ('the Company') will be held on Monday, September 27, 2021 at 11:30 A.M. (IST) through two-way VC/OAVM facility in compliance with all the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and General Circular No. 14/2020 dated April 8.

POLAR INVESTMENS LIMITED

Registered Office: New Hind House, 3, Narottam Morarjee Marg, Ballard Estate,

Mumbai - 400001 Tel. No. 022-22686000 Fax No. 022-22620052

Email: polarinvestments@rediffmail.com

INFORMATION REGARDING 47th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), to transact business set forth in the Notice of the AGM. In compliance with the above Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for Financial

Year 2020-21 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresse: are registered with the Company/National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited ("the Depositories"). A copy of Notice along with the Annual Report for Financial Year 2020-21 will also be available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Manner for registering/updating email address:

- In case the Member's e-mail ID is already registered with the Company/ KFin Technologies Private Limited ("KTPL") ("Registrar and Transfer Agent")/ the Depositories, details for e-voting shall be sent on the registered email address.
- In case the Member holding shares in physical mode has not registered his/her/its e-mail address with the Company/KTPL/ the Depositories, he/she/it may do so by sending a duly signed request letter to KTPL by providing Folio No. and Name of shareholder at KTPL, (Unit: Polar Investments Limited), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500 032) or send a scanned copy of the signed request letter through e-mail to einward.ris@kfintech.com
- In the case of shares held in demat mode, the Members may contact the Depository Participant ("DP") and register the email address in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

Manner of Voting at the AGM:

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system. The manner of voting remotely or during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and who have not registered their email addresses will be provided in the Notice convening the AGM.

The above information is being issued for the benefit of all the Members of the Company in compliance with the Circulars. This information is also being available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

For further information, Members may contact KTPL quoting the Folio Number/DP ID and Client ID at: KFin Technologies Private Limited

For Polar Investments Limited

Director

(Unit: Polar Investments Limited) Selenium Tower B, Plot, 31-32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032

Email: einward.ris@kfintech.com

Arun Agarwal August 18, 2021 Mumbai DIN: 00194010

CIN: U99999MH1947PLC005735 Registered Office: New Hind House, 3 N. M. Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001 Phone No.: 022-22686000 Fax No.: 022-22620052 Email: jkitil@raymond.in Website: www.ikinvesto.com

INFORMATION REGARDING 7314 ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

J. K. INVESTO TRADE (INDIA) LIMITED

NOTICE is hereby given that the Seventy Third Annual General Meeting ("AGM") of the Members of J. K. Investo Trade (India) Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 23, 2021 at 11:30 A.M. (IST) through two-way VC/OAVM facility in compliance with all the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and General Circular No. 14/2020 dated April 2020. General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), to transact business set forth in the Notice of the AGM.

In compliance with the above Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for Financial Year 2020-21 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited ("the Depositories"). A copy of Notice along with the Annual Report for Financial Year 2020-21 will also be available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Manner for registering/updating email address:

- In case the Member's e-mail ID is already registered with the Company/Link Intime India Private Limited ("LIIPL") ("Registrar and Transfer Agent")/ the Depositories, details for e-voting shall be sent on the registered email address.
- In case the Member holding shares in physical mode has not registered his/her/its e-mail address with the Company/LIIPL/Depositories, he/she/it may do so by sending a duly signed request letter to LIIPL by providing Folio No. and Name of shareholder at LIIPL, (UNIT: J. K. Investo Trade (India) Limited), C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 or send a scanned copy of the signed request letter through e-mail to mt.helpdesk@linkintime.co.in
- In the case of Shares held in Demat mode, the Members may contact the Depository Participant ("DP") and register the email address in the Demat account as per the process followed and advised by the DP

Manner of Voting at the AGM:

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system. The manner of voting remotely or during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and who have not registered their email addresses will be provided in the Notice convening the AGM.

The above information is being issued for the benefit of all the Members of the Company in compliance with the Circulars. This information is also being available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

For further information, Members may contact LIIPL quoting the Folio Number/DP ID and Client ID at Link Intime India Private Limited

(Unit: J. K. Investo Trade (India) Limited) C-101, 247 Park,

L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083

Email: mt.helpdesk@linkintime.co.in

For J. K. Investo Trade (India) Limited

Ankita Sharma

August 18, 2021 Mumbai

Regd. Off.: B 50-A, 2st Floor, Archana Complex, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 Fax: 49862990 E-mail: corporate@ndtv.com | Website: www.ndtv.com

CIN: L92111DL1988PLC033099

Notice be and is hereby given that the 33" Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means "OAVM") on Wednesday, September 22, 2021 at 03:00 P.M. IST, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and General Circular 02/2021 dated January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs; and SEBI Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (collectively referred to as 'relevant circulars'), without the physical presence of the Members. The Members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2020-21 will be sent only by email to all the Members whose mail ID is registered with

Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. KFin Technologies Private Limited. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.ndtv.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, viz. KFin Technologies Private Limited ('RTA') at https://evoting.kfintech.com Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of the

the Company or with their respective Depository Participants and with Company's

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, September 13, 2021 to Wednesday, the September 15, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM. To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2020-21, the Members

are requested to register/update their email address / contact number in the following

- scanned copy of the signed request letter mentioning Name, Folio Number, Share certificate number, complete address, email address and mobile number, and
- scanned copy of self-attested PAN card. Further, members may also visit the website https://ris.kfintech.com/ clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx and update their email ID/
- In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized form are

Further, members may also visit the website https://ris.kfintech.com/ clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx and update their email ID/ contact number thereof Kindly note that in case the shares are held in electronic form, the above facility is only

for temporary registration of email address for receipt of Notice, Integrated Report and

the e-voting instructions along with the User ID and Password, Such Members will have to register their email address with their DPs permanently, so that all communications are received by them in electronic form. The manner of voting remotely (remote E-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their email

addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.ndtv.com and on the website of RTA at https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx. The login credentials for casting vote through e-voting shall be made available to the members though email.Members can join and participate at the AGM only through VC/OAVM facility. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their votes by remote E-voting will be able to vote at the AGM. In case of any query/grievance pertaining to E-voting, please visit Help & FAQ's section of the RTA at https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Ravuri Vijay, Deputy Manager at KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500032, Telangana, India, e-mail: einward.ris@kfintech.com, Contact No.: +91 40 6716 2222 and Toll Free No.:

compliance with the relevant Circulars as referred herein above. For New Delhi Television Limited Place: New Delhi Tannu Sharma

Date: August 18, 2021 Company Secretary & Compliance Officer

(%)

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY **GUWAHATI**

Guwahati - 781 039, Assam

e-TENDER NOTICE

Online tenders from prospective bidders are invited for "AMC of Param Ishan" at IIT Guwahati. For detailed information, interested parties are requested to visit the

following websites: https://eprocure.gov.in/eprocure/app and https://www.iitg.ac.in/iitg_tenders_all.

Tender ID: 2021 IITG 643020 1

Last Date of Submission: 27.08.2021, 3.00 PM

JR (S&P)

SCHEDULE II FORM B

lation 12 of the insolvency and Bankruptcy Board of Indi (Liquidation Process) Regulations, 2016)

For the attention of stakeholders of Kanakadhara Ventures Private Limited RELEVANT PARTICULARS Name of corporate debtor

2 Date of incorporation of corporate debtor 28-09-2005 3 Authority under which corporate debtor is Register of Companies - Hyderabad incorporated / registered

Corporate Identity No. / Limited Liability CIN No.U70102TG2005PTC047611 Identification No.of corporate debtor

5 Address of the registered office and prin- H.No.8-3-1114/1, Keshav Nagar, Srinagar cipal office (if any) of corporate debtor Colony, Hyderabad, TG 500073, IN.

6 Date of closure of Insolvency 12.08.2021 Resolution Process

corporate debtor on 17.08.2021) Name and registration number of the insol- Chillale Rajesh vency professional acting as Liquidator IBBI/IPA-001/IP-P00699/2017-2018/11226

Address and e-mail to be used for c H.S.Darga, Hyderabad-500008, Telangana. respondence with the Liquidator. kanakadhara.lig@gmail.com 12.09.2021 11 Last date for submission of claims

The stakeholders of M/s. Kanakadhara Ventures Private Limited are hereby called upon to submit their claims or update their claims submitted during the Corporate Insolvency Resolution Process as on the Liquidation Commencement date with proof on or before **September 12, 2021** to the Liquidator at the address mentioned against entry No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. Al

Liquidator, Kanakadhara Ventures Private Limited Place: Hyderabad.

SCHEDULEII FORM B

(Liquidation Process) Regulations, 2016) For the attention of stakeholders of Ind-Barath Power Gencom Limited RELEVANT PARTICULARS

3 Authority under which corporate debtor is Register of Companies - Hyderabad incorporated / registered 4 Corporate Identity No. / Limited Liability CIN No.U40109TG2005PLC046960

principal office (if any) of corporate Old Bowenpally, Secunderabad-50001 Rangareddy Dist., Telangana. www.ibpgl.com Date of closure of Insolvency 12.08.2021

corporate debtor on 17.08.2021) 8 Name and registration number of the insol- Chillale Rajesh IBBI/IPA-001/IP-P00699/2017-2018/11226 vency professional acting as Liquidator

Liquidation commencement date of the 13.08.2021 (Order uploaded on NCLT website

Address and e-mail to be used for cor- B-421, Western Plaza, O.U.Colony respondence with the Liquidator. H.S.Darga, Hyderabad-500008, Telangana raiesh.c.irp@gmail.com, www.ibpgl.com Last date for submission of claims

Limited on August 12, 2021. submit their claims or update their claims submitted during the Corporate Insolvency

September 12, 2021 to the Liquidator at the address mentioned against entry No.10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. Al

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Rajesh Chillale

IBBI/IPA-001/IP-P00699/2017-2018/11226 Date: August 19, 2021 Place: Hyderabad. Liquidator, Ind-Barath Power Gencom Limited

CIN: L70109DL1986PLC025841

Regd. Office: 37, Ring Road, Lajpat Nagar - IV, New Delhi 110024 Phone: 011-26432601/02/03, Email: secretarial@govalgroup.com NOTICE FOR 34TH ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual Report of the Company for the year 2020-2021 including the financial statements for the year ended March 31, 2021 will be sent only by email to those Members, whose e mail address were available with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited and whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants. The instructions for attending AGM and the manner of participation in the

www.morganventures.in and the website of Bombay Stock Exchange Limited i.e www.bseindia.com. Members holding shares in physical form who have not registered their e mail addresses with the Company / Depositories can obtain Notice of the AGM, Annual Report and/or Login for e voting facility, by sending email to secretarial@goyalgroup.com. Pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing)

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2013, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company providing the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means on any or all the businesses specified in the Notice convening the 34"

Meeting dated 14.08.2020.

(d) Cut-off. Date – 07.09.2021 (e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date

downloaded from www.morganventures.in

.Remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after Monday, 13.09.2021, 05.00 p.m.

. Those members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company may register their email address by communicating/ writing to the Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) Skyline Financial Services Pvt. Ltd., D-153A, 1" Floor, Phase I, Okhla Industrial Area, New Delhi 110020 at info@skylinerta.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the shareholder, self attested copy of the PAN card and any other document (e.g. Driving licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Shareholder. The members who are holding shares in demat form, can update their email address with their respective Depository

remote e-voting or voting through ballot at the AGM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Members and e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800-222-990 or emailsecretarial@goyalgroup.com

> By Order of the Board of Directors For Morgan Ventures Limited

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Kanakadhara Ventures Private Limited

7 Liquidation commencement date of the 13.08.2021 (Order uploaded on NCLT website

9 Address and e-mail of the Liquidator, as B-421, Western Plaza, O.U. Colony, H.S. registered with the Board Darga, Hyderabad-500008, Telangana. chillalerajesh@yahoo.co.in r- B-421, Western Plaza, O. U. Colony,

Bench has ordered the commencement of a Liquidation of M/s. Kanakadhara Ventures Private Limited on August 13, 2021.

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal Hyderabad

Rajesh Chillale **Date: August 19, 2021** IBBI/IPA-001/IP-P00699/2017-2018/11226

1 Name of corporate debtor **Ind-Barath Power Gencom Limited** 2 Date of incorporation of corporate debtor 25-07-2005

5 Address of the registered office and H.No.8-5-210/43, Plot No.44, Shiva Enclave

9 Address and e-mail of the Liquidator, as B-421, Western Plaza, O.U.Colony, H.S.Darga registered with the Board Hyderabad-500008, Telangana.

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal Hyderabad Bench has ordered the commencement of a Liquidation of M/s. Ind-Barath Power Gencom The stakeholders of M/s. Ind-Barath Power Gencom Limited are hereby called upon to

other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

emote e voting or casting vote during AGM are provided in the AGM Notice. The Notice of AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e.

Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, the 07" Day of September, 2021 to Tuesday, the 14" Day of September, 2021 for the purpose of Annual General Meeting.

by electronic means on the Resolutions set out in Notice in the Annual General (b) Day, Date and Time of Commencement of e-voting – Friday, 10.09.2021, 09.00 a.m.

(c) Day, Date and Time of ending of remote e-voting – Monday, 13.09.2021, 05.00 p.m.

i.e. 07.09.2021 should follow the instructions for e-voting as mentioned in the AGM Notice which is available on the Company's website. Notice of AGM and Annual Report is available on Company's website and can be

The Members are requested to note that

AGM. The members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

The results of the e-voting/ voting at AGM ballot shall be declared on or before

Sd/- Anand Kumar Mishra Company Secretary

Members will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the businesses Email: info@pushpsons.com Website: www.pushpsons.com as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system. The manner of voting NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING,

> Company Secretary NEW DELHI TELEVISION LIMITED

NOTICE REGARDING 33" ANNUAL GENERAL MEETING

/public/downloads.aspx in due course of time.

In case of physical holding: Member may send an e-mail request to the Company at secretarial@ndtv.com along with:

requested to register/update their email addresses with their relevant Depository

This is being issued for the information and benefit of the members of the Company, in

New Delhi

(Regulation 12 of the insolvency and Bankruptcy Board of India

Resolution Process

Identification No.of corporate debtor

chillalerajesh@yahoo.co.in

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday September 14, 2021 at 10:00 A.M. at 53, Friends Colony (East), New Delhi

AGM of the Company ("remote e-voting") through e-voting services of NSDL: (a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote

The facility for voting through ballot shall be made available at the venue of AGM. The members who will be attending the meeting and who have not cast their votes

through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights through Ballot at

Participants. Member holding share as on 07.09,2021 shall only be entitled to avail the facility of

14.09.2021. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and communicated to the Bombay Stock Exchange where the Company's shares are Listed.

Place: New Delhi Date: 18.08.2021

other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Resolution Process as on the Liquidation Commencement date with proof on or before

MORGAN VENTURES LIMITED

क्लिकस लोनस प्राईवेट लिमिटेड

प्रक्रिया विशिष्ट ईमेल आई ही : vl.clixloans@gmail.com

टेलीफोन नम्बर : 011-49121644/45

बूंदी के न्यायाधीश को मिली जान से मारने की धमकी

कोटा (राजस्थान), १८ अगस्त (भाषा)।

राजस्थान के बंदी में एक जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी मिली है. जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी झारखंड के धनबाद में पिछले महीने एक न्यायाधीश को वाहन से कचलने की घटना के बाद सामने आई है। सीसीटीवी फटेज में न्यायाधीश काफी चौडी सडक के एक हिस्से में टहलते हुए नजर आ रहे हैं और उसी समय एक ऑटोरिक्शा उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें पीछे की ओर से टक्कर मारते हुए फरार हो गया।

बूंदी जिला एवं सत्र अदालत न्यायाधीश सुधीर पारिक को 10 अगस्त को एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। न्यायाधीश ने 11 अगस्त को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। न्यायाधीश की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में उद्धत पत्र में कहा गया है कि न्यायाधीश साहिब, हम आपको 13 सितंबर को जान से मार देंगे। ख़ुद को बचा सकते

न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी झारखंड के धनबाद में पिछले महीने एक न्यायाधीश को वाहन से कुचलने की घटना के बाद सामने आई है।

हो तो बचा लो, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाओगे।

पत्र में आगे कहा गया कि न्याय की उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती। इसलिए माफिया की मदद से यह कदम उठाया गया है। पत्र में कहा गया कि न्यायाधीश के परिवार ने उनका नुकसान नहीं किया है, वरना तो उनकी योजना परे घर को ही विस्फोटक से उड़ा देने की थी। इसमें कहा गया कि आपको बचने का एक मौका दिया जा रहा है, जैसा कि आप अदालत में आरोपी के लिए करते हैं। पत्र में कहा गया कि पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। बूंदी जिले के पुलस अधीक्षक के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

बूंदी सिटी पुलिस थाने के निरीक्षक सहदेव मीणा ने कहा कि इस संबंध में 11 अगस्त को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।

महबूबा मुफ्ती की मां ईडी के सामने हुई पेश

श्रीनगर, 18 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां धनशोधन से जुड़े एक मामले में बुधवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। अधिकारियों ने बताया कि गुलशन नजीर यहां सिविल लाइंस स्थित एजंसी के कार्यालय में अपनी बेटी के साथ पहुंची। उनकी आयु लगभग 70 साल है।

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पत्नी नजीर को पहले तीन बार समन भेजा गया था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस कदम को पार्टी के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था।

मिनी बस डिवाइंडर से

फिरोजाबाद (उप्र) 18 अगस्त (भाषा)।

जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर बुधवार सुबह असम से दिल्ली जा रही एक मिनी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबिक 24 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इस दुर्घटना में बस चालक एवं एक महिला यात्री की मौत हो गई, वहीं 24 अन्य लोग घायल हो गए जिनमें से 12 यात्रियों को पीजीआइ सैफई में भर्ती कराया गया है। बाकी घायलों को मामुली उपचार के

बाद छुट्टी दे दी गई। दुर्घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण ने बताया, 'असम से मजदूरों को लेकर एक मिनी बस दिल्ली जा रही थी, जिसमें 35 मजदूर सवार थे। ये लोग दिल्ली किसी सफाई कंपनी में बतौर सफाई कर्मचारी काम करने जा रहे थे।

अस्थाना मामले में नोटिस जारी करने से इनकार

नई दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने से बुधवार को इनकार कर दिया और पूछा कि क्या उनकी नियुक्ति से संबंधित कोई अन्य याचिका किसी दूसरी अदालत में लंबित है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अस्थाना की नियुक्ति और सेवा में एक साल के विस्तार के खिलाफ सदरे आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा, 'क्या ऐसा कोई मामला किसी अन्य अदालत के समक्ष लंबित है?'

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि उनकी जानकारी में अभी तक किसी भी अन्य अदालत में ऐसी कोई

याचिका लंबित नहीं है। केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने कहा, 'विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।' पीठ ने वकील से कहा, 'निर्देश लीजिए। पता लगाइए और

सोमवार को आइए।' आलम की ओर से पेश वकील बी एस बग्गा ने अदालत से याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने कहा, "नहीं, नहीं। हमे अभी इसमें हर चीज पढ़नी है। हम देखेंगे।'

सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि दीपक बन्सल पुत्र श्री विजय बन्सल प्लाट सं0 28 (पूर्वी आधा भाग) जो कि रोड नं0 78, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1127.50 वर्गगज है जिसका पंजीकरण राजस्व सम्पत्ति, बसईदारापुर, उपनिबन्धक-IIA, पंजाबी बाग में विक्रय पत्र संख्या 3344 व 3345 दिनांकित 22.06.2007 में हो रखा है। दीपक बन्सल हारा आई.

बैंक को मूल विक्रय पत्र/शीर्षक पत्र प्रस्तुत किये हैं :--

- विक्रय पत्र दिनांकित 02 मार्च 2005 जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक दिल्ली में बही सं0 1 जिल्द सं0 12524 पुष्ठ सं0 11 से 18 में नम्बर 6313 पर दिनांकित 02.03.2005 को आफताब मोहन चोपडा व श्रीमती सोनया दिवाकर सिंह के द्वारा श्री गुरचरण सिंह बतरा के हक में निष्पादित किया गया था।
- विक्रय पत्र दिनांकित 02 मार्च 2005 जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक दिल्ली में बही सं0 1 जिल्द सं0 12524 पृष्ठ सं0 19 से 26 में नम्बर 6314 पर दिनांकित 02.03.2005 को आफताब मोहन चोपड़ा व श्रीमती सोनया दिवाकर सिंह के द्वारा श्री सखदेव बतरा के हक में निष्पादित किया गया था। विक्रय पत्र दिनांकित 20.01.2006 जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक दिल्ली में बही सं0 1 जिल्व
- सं0 281 पुष्ठ सं0 165 से 177 में नम्बर 356 पर दिनांकित 20.01.2006 को श्री मनजिन्दर सिंह रियार के द्वारा श्री रोहित ग्रोवर के हक में निष्पादित किया गया था। विक्रय पत्र दिनांकित 13.01.2006 जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक दिल्ली में बही सं० 1 जिल्द
- सं0 276 पृष्ठ सं0 81 से 93 में नम्बर 216 पर दिनांकित 13,01,2006 को श्री मनमोहन बतरा के द्वारा श्री रोहित ग्रोवर के हक में निष्पादित किया गया था। विक्रय पत्र दिनांकित 22.06.2007 जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक दिल्ली में बही सं0 1 जिल्द
- सं0 718 पुष्ठ सं0 161 से 177 में नम्बर 3344 पर दिनांकित 22.06.2007 को श्री रोहित ग्रोवर द्वारा श्री दीपक बन्सल के हक में निष्पादित किया गया था। विक्रय पत्र दिनांकित 22.06.2007 जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक दिल्ली में बही संव 1 जिल्द सं0 718 पुष्ठ सं0 178 से 194 में नम्बर 3345 पर दिनांकित 22.06.2007 को श्री रोहित ग्रोवर
- द्वारा श्री दीपक बन्सल के हक में निष्पादित किया गया था। बंटवारानामा दिनांकित 25.11.2010 जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक दिल्ली में बही संठ 1 जिल्द सं0 1572 पृष्ठ सं0 177 से 188 में नम्बर 7223 पर दिनांकित 25.11.2010 को श्री दीपक बन्सल व श्री सुरेशचन्द बन्सल व अमित बन्सल के मध्य हुआ।
- आपसी सुलहनामा दिनांकित 11.04.2012 जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक दिल्ली में बही सं0 4 जिल्द सं0 680 पृष्ठ सं0 50 से 60 में नम्बर 669 पर दिनांकित 11.04.2012 को श्री दीपक बन्सल व श्री सुरेशचन्द बन्सल व अमित बन्सल के मध्य हुआ।

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 द्वारा यह सुचित किया गया है कि उपरोक्त शीर्षक विलेख खो गये है और आई सी.आई सी.आई. बैंक के सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी उक्त शीर्षक विलेख नहीं मिल रहे हैं जिसके लिए आई.सी.आई. सैंक द्वारा एक पुलिस कम्पलेन्ट एल.आर. नंठ 732544 / 2018 दिनांकित 25. 02.2019 पुलिस स्टेशन काईन ब्रान्च दिल्ली, एस.ओ. नं0 430/2014 में दायर करवायी गयी है।

अब श्री दीपक बन्सल एक्सिस बँक लिंठ, नई दिल्ली के पक्ष में उपरोक्त सम्पत्ति को सामयिक बन्धक बनाना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति के बिक्री, विनियम, गिरवी, प्रभार उपहार, ट्रस्ट, रख–रखाव, विरासत, कब्जा, पट्टा, ग्रहणाधिकार, सुखाचार, लाईसेन्स या अन्यथा और उपरोक्त सामग्री के असत्य या अपूर्ण होने के सम्बन्ध में कोई दाया या आपत्ति है तो वह इस सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर लिखित में नोटिस प्रकाशित करने वाले, एडवोकेट को सूचित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि उपरोक्त शीर्षक विलेख का स्पष्ट विपणन योग्य और हस्तान्तरणीय शीर्षक है और सभी बन्धनों से मुक्त है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में यदि निर्धारित समयावधि के अन्दर किसी के द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति की ऐवज में कोई दावा, आपत्ति, भार प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उक्त दाये, आपत्ति, भार को माफ कर दिया गया और जब्त कर लिया गया, माना जायेगा।

दिनांक- 17 अगस्त, 2021

एडवोकेट रोहित आनन्द दास पार्टनर, लीड लॉ एस-317, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048 011-47503723

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड सीआईएन: L92111DL1988PLC033099 पंजीकृत कार्यालय: वी 50-ए, दूसरी मंजिल, अर्चना कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश- ।, नई दिल्ली-110048 फोन: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 फैक्स: 49862990 ई-मेल: corporate@ndtv.com | वेबसाइट: www.ndtv.com 33" वार्षिक आम बैठक के संबंध में सचना

रतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों एवं उसके तहत निर्मित नियमो तथा सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और सामान्य परिपत्र 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (सामृहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और कॉपॅरिट कार्य मंत्रालय और सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षायें) विनियम, 2019 के साथ पठित, और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 और सेबी द्वारा जारी अन्य लाग् परिपन्न और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना बुधवार, 22 सितंबर, 2021 को अपराह 03:00 (IST) बजे आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य की परिगणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के लिए गिना जाएगा

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 केवल उन सभी सदस्यों कं ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनकी मेल आईडी कंपनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (आरटीए) अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ndtv.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर उपलब्ध होंगे, और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/public/downloads.aspx पर, अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लेमिटेड ('आरटीए') पर भी नियत समय में उपलब्ध होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षायें) विनियम, 2015 के विनियम 42 और 47 के अनुसार सूचना दी जाती है कि एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शोयर अन्तरण पुस्तिका सोमवार 13 सितंबर, 2021 से बुधवार, 15 सितंबर, 2021 (दोनों दिन

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है

कि वे अपना ईमेल पता / संपर्क नंबर निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत / अपडेट करें: क) भौतिकधारिता के मामले में: सदस्य कंपनी को जिम्नलिखित के साथ एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं:

नाम, फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, परा पता, ईमेल पता और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए

हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी, और सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड की स्कैन कॉपी।

इसके अलावा, सदस्य वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/

mobileemailreg.aspx पर भी जा सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी/उसके संपर्क नंबर को अपर्डेट डीमैट धारिता के मामले में. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को

अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ रजिस्टर/अपडेट करें। इसके अलावा, सदस्य वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx पर भी जा सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी/उसके संपर्क नंबर को अपडेट कर

कपया ध्यान दें कि यदि शेयर इलेक्टॉनिक रूप में हैं. तो उपरोक्त सविधा केवल यजर आईडी और पासवर्ड के साध नोटिस, एकीकृत रिपोर्ट और ई-बोटिंग निर्देशों की प्राप्ति के लिए ईमेल पते के अस्थायी पंजीकरण के लिए है। ऐसे सदस्यों को अपना ईमेल पता अपने डीपी के पास स्थायी रूप से पंजीकृत कराना होगा, ताकि सभी संचार

इलेक्टोनिक रूप में उन्हें प्राप्त हो सकें। कृपया ध्यान दें कि यदि शेयर इलेक्टॉनिक रूप में हैं, तो उपरोक्त सुविधा केवल यूजर आईडी और पासवर्ड के साध नोटिस, एकीकत रिपोर्ट और ई-वोटिंग निर्देशों की प्राप्ति के लिए ईमेल पते के अस्थायी पंजीकरण के लिए है।ऐसे सदस्यों को अपना ईमेल पता अपने डीपी के पास स्थायी रूप से पंजीकृत कराना होगा, ताकि सभी संचार इलेक्टोनिक रूप में उन्हें प्राप्त हो सकें।

डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उन्हें एजीएम की सूचना में दूरस्थ रूप से (रिमोट ई-वोटिंग) वोटिंग का तरीका प्रदान किया जाएगा।विवरण कंपनी की वेबसाइट www.ndtv.com पर और आरटीए की वेबसाइट https://evoting. kfintech.com/public/downloads.aspx पर भी उपलब्ध होगा।ई-वोटिंग के माध्यम से वोंट डालने के लिए लॉगिन के डेंशियल सदस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं।ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, कृपया https://evoting.kfintech.com पर आरटीए के हेल्प एंड एफएक्यू अनुभाग पर जाएं या केफिन टेक्नीलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी के उप प्रबंधक श्री रविरी विजय से , प्लॉट 31 और 32, फाइनेंसियल डिस्टिक्ट नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद 500032, तेलंगाना, भारत, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com, संपर्क नंबर: +91 4067162222 और टोल फ्री नंबर: 1800 3094001 पर संपर्क करें।

यह ऊपर उल्लिखित संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

स्थान : नई दिल्ली

नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के लिए

मौसम विभाग के गलत अनुमानों के खिलाफ अदालत जाने की चेतावनी

भोपाल, 18 अगस्त (भाषा)।

मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के एक किसान संगठन के नेता ने 'भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' (आइएमडी) की मौसम संबंधी गलत भविष्यवाणियों के चलते फसलों को नुकसान का दावा करते हुए उसके खिलाफ अदालत में जाने की चेतावनी दी है।

हालांकि आइएमडी के एक वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि किसानों को गुमराह किया गया होगा, क्योंकि एक निजी मौसम सेवा ने आइएमडी के पूर्वानुमान के विपरीत इस साल मानसून जल्द आने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को यह जांचना चाहिए कि जानकारी क्या वास्तविक स्रोत से उनके पास आ रही है।

भारतीय किसान संघ, मालवा प्रांत के प्रवक्ता भरत सिंह बैस ने बुधवार को दावा किया, 'ज्यादातर मामलों में मौसम की भविष्यवाणी विफल रही है।

इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।' उन्होंने कहा कि वे आइएमडी के गलत पूर्वानुमानों के खिलाफ अदालत में जाने की योजना बना रहे हैं और इस संबंध में अंतिम फैसला जल्द ही किया जाएगा। उज्जैन के किसान नेता बैस ने कहा कि कई बार

किसान आइएमडी के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बुवाई के लिए खुद को तैयार करते हैं, लेकिन गलत पूर्वानुमानों के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ और बोई गई फसलों को हाल की बारिश से नुकसान पहंचा है।

उन्होंने कहा , आंकड़े जमा करने के बाद हम अगले माह एक बैठक कर इस संबंध में अदालत जाने के बारे में फैसला करेंगे।

आइएमडी भोपाल केंद्र के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने आरोपों का खंडन किया और बताया कि एक से अधिक स्रोतों से मौसम के पूर्वानुमान से किसान गुमराह हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कम से कम ये जांच लेना चाहिए।

मुंबई में सार्वजनिक शौचालय ढहा, एक घायल

मुंबई, 18 अगस्त (भाषा)।

मुंबई के पोइसर इलाके में बुधवार की सुबह एक सार्वजनिक शौचालय ढह गया। इस हादसे में 28 वर्षीय एक युवक घायल हो गया। एक निकाय अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शौचालय में फंसे तीन अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अधिकारी ने कहा कि पोइसर में बिहारी टेकडी रोड पर कमलेश कंपाउंड में एक चॉल में स्थित शौचालय की दीवारें और छत सुबह आठ बजे ढह गई।

उन्होंने कहा कि उसमें चार लोग फंसे थे, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले सभी को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे कांदिवली स्थित शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है।

महत्वपूर्ण सूचना

रेलयात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा नई समय—सारणी लागू होने की तिथि से निम्नलिखित रेलगाडियों के टर्मिनल को बदलने का निर्णय लिया गया है, विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

रेलगाड़ी सं. एवं नाम	मौजूदा टर्मिनल	संशोधित टर्मिनल
14613/14614 चण्डीगढ़ – फिरोजपुर केंट– चण्डीगढ़ एक्सप्रेस	चण्डीगढ़	साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)
22659/22660 कोच्युवेली — देहरादून — कोच्युवेली एक्सप्रेस	देहरादून	योग नगरी ऋषिकेश
19019/19020 बान्द्रा टर्मिनस — देहरादून — बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस	देहरादून	हरिद्वार
13009/13010 हावड़ा – देहरादून – हावड़ा दून एक्सप्रेस	देहरादून	योग नगरी ऋषिकेश

👍 नोट :- नई समय-सारणी लागू होने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी 😭 🕽

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी अन्य जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें। रेलगाडियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।





बकाया राशि

₹.32.03.237 / -

रुपए बत्तीस लाख

तीन हजार दो सं

सैतीस केवल) 31.03

2021 तक उसप

भावी व्याज

आकरिमक व्यय

लगातों सहित ऋण

HSG/N/HEA/NSP/

5.20.56.174/-

रुपए बीस लाख

छप्पन हजार एक स

बौहत्तर केवल) 31.03.

2021 तक उसपर

लगातों सहित ऋण

N H S / N / H E A NSP/1017/0005

₹.18,92,417/

हपए अठारह लाख

बानबे हजार चार स

सत्रह केवल) 31.03

2021 तक उसप

लगातों सहित ऋए

ठा।ता स

0316/0024

HSG/N/HEA/NOI/

भाबी ब्याज आकस्मिक व्यय

भावी ब्याज

आकरिमक व्यय

खाता स

0118/0010

मांग सूचना

कब्जा सूचना

05.04.2021

13.08.2021

15.04.2021

16.08.2021

05.04.2021 T. 13,77,509/

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, गैजिनाइन फ्लोर, एम-4 साउथ एक्सटेंशन पार्ट-11, नई दिल्ली-110049, निगमित कार्यालयः सी-1, सैक्टर-3, नीएड़ा-201301 ई-मेलः info@newhabitat.in, वेक www.newhabitat.in, मो.: +91-9999694526, फोनः 0120-4180500 एक्सटेंशनः1102 कब्जा सूचना

र्डुकि, विलीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 2002 का 54) (यहां के बाद 'अधिनियम के रुप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन ों न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनांस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मीजूदा अघोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति को तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि का भूगतान करने के लिए नीचे वर्णित ऋणियों को बुलाने के लिए नीचे वर्णित तिथियों पर एक मांग सुचना जारी की थी। ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतदद्वारा ऋणी और सर्वसाघारण को सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नेयम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे

विशेष रूप से ऋणी / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्वसाधारण को एतदद्वारा संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ किया गया कोई लेन-देन सूचना में वर्णित राशि के लिए न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनांस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।ऋणियाँ का ध्यान प्रतिभृति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम 13 की धारा उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है । क्र. ऋणी का नाम/सह-ऋणी/गारंटर

1. 1. श्री इंदर सिंह पुत्र श्री राम धीरज सिंह निवासी सी-13. आवासीय मकान सं. ई-63, कुल

संपत्ति का विवरण

रोड, दक्षिणः उक्त संपत्ति का हिस्सा

प्राधिकृत अधिकारी न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

(सेंट्रल बॉल कॉमन)

	गणेश नगर एक्सटेंशन—2, शकरपुर, दिल्ली—110092 इसके अलावाः मकान सं. ई—63, गंगा बिहार एक्सटेंशन, सादुलाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201102 इसके अलावाः डी—114—बी, शकरपुर, दिल्ली—110092 इसके अलावाः निवासी सी—13, शंकर नगर एक्सटेंशन—2, शकरपुर, दिल्ली—110092 2. श्रीमती मीनू सिंह पत्नी श्री इंदर सिंह निवासी निवासी सी—13, गणेश नगर एक्सटेंशन—2, शकरपुर, दिल्ली—110092 इसके अलावाः मकान सं. ई—63, गंगा बिहार एक्सटेंशन, सादुलाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201102 इसके अलावाः डी—114—बी, शकरपुर, दिल्ली—110092 इसके अलावाः निवासी सी—13, शंकर नगर एक्सटेंशन—2, शकरपुर, दिल्ली—110092	27.87 वर्ग मीटर खसरा सं. 40, गंगा विहार एक्सटेंशन, ग्राम सादुलाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. निम्नानुसार सीमाबद्ध :पूर्वः मकान सं. ई–64, पश्चिमः रास्ता 30 फीट, उत्तरः मकान सं. ई–61	13.08.2021	- (रुपए तेरह लाख, सतहरार हजार पाँच सी नी केवल) 31.03.2021 तक उसपर भावी ब्याज व आकस्मिक व्यय व लगातों सहित ऋण खाता सं. HSG/N/ HEA/NOI/ 0416/0016
2.	1. श्री प्रदीप पत्र श्री जय भगवान प्लॉट सं. 500 /20ए. भीकम	गांव कड़कड़बूमा में स्थित, ब्लॉक 32, विश्वास नगर, इलाका शादहरा दिल्ली—110032 संपत्ति सं. 500/20-ए, एरिया परिमाप 25+25=50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग	26.04.2021	₹.40,04,100/-
	ासह कोलाना, ब्लाक-32, विश्वास नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 इसके अलावाः मकान सं184ए, तिलक राम कॉलोनी, लोनी अलापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102, इसके अलावाः 344, सङ्क सं.७, पश्चिम कांटी नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 इसके अलावाः 28/11, द्वितीय तले, गली सं. 15, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 2. श्रीमती रेणु पत्नी श्री प्रदीप प्लॉट सं. 500/20-ए, भीकम सिंह कॉलोनी, ब्लॉक-32, विश्वास नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 इसके अलावाः मकान सं184ए, तिलक राम कॉलोनी, लोनी अलापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102.		13.08.2021	- (रुपए घालीस लाख, घार हजार एक सी केवल) 31.03.2021 तक उसपर भाबी ब्याज व आकस्मिक व्यय व लगातों सहित ऋण खाता सं, HSG/N/HEA/NSP/ 1217/0020

इसके अलावाः 344, सबैक सं.7, पश्चिम काटी नगर, कृष्णा नगर, गली, दक्षिणः अन्य संपत्ति दिल्ली–110051 इसके अलावाः 28/11, द्वितीय तल, गली सं. श्री मंजीत सिंह अरोडा मकान सं. एएच–14. ब्लॉक एएच गाँव सिंगलपुर, दिल्ली ालीमार बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली—110088 इसके अलावा दिल्ली—110088 के पुराने लाल डोरा स्थित बिना छत अधिकार के संपूर्ण द्वितीय बीडब्ल्यू-24डी, शालीमार बाग, दिल्ली-110068 इसके अलावा तल संपत्ति से 2 (पुराना) का हिस्सा संपत्ति सं. 49(एसई-49), पुराना सं. 2, द्वितीय तल, ग्राम इसकी नगरपालिका सँ. 49 अब एसई-49 सिंगलपुर, दिल्ली-110088 इसके अलावाः जैज मोटर्स, दुकान (नृया) के नाम से जाना जाता है एरिया सं. १९ बीएस ब्लॉक मार्केट, शालीमार बाग, दिल्ली–110088

 श्रीमती मनदीप कौर मकान सं. एएच-14, ब्लॉक एएच, और प्रयेश जमीन से द्वितीय तल तक जाने शालीमार बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110088 इसके अलावा के लिए, साथ ही नीचे की जनीम बीडब्ल्यू—24डी, शालीमार बाग, दिल्ली—110088 इसके अलावा: आनुपातिक फी होल्ड अधिकार और संपत्ति सं. 49(एसई—49), पुराना सं. 2, द्वितीय तल, ग्राम विजली के सभी फिटिंग और फिक्स्वर शामिल हैं, पानी स्वच्छ्ता, इसके कनेक्शन

गली सं.13, राजगढ कॉलोनी, दिल्ली-110031 इसके अलावा: घो डली, इलाका शाहदरा,

4. 1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री वेद पाल निवासी एक्स / 1679, शंकर नगर की आबादी में, गांव 9/1764, गली सं.9, राजगढ़ कॉलोनी, दिल्ली—110031 इसके दिल्ली—110051 में रिथत भूतल पर अलावाः भूतल पर दुकान, संपत्ति सं. 122 / 7, प्लॉट सं. 13, शंकर दुकान छत के स्तर तक, संपत्ति सं. नगर, दिल्ली—110051 इसके अलावा : गगन डेयरी सं 122/7, प्लॉट सं. 13, खसरा सं. 9 / 1051, पटेल गली, गांधी नगर दिल्ली-110031 2. श्रीमती सीनू पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी एक्स / 1679. अन्य संपत्ति, पश्चिमः उक्त संपत्ति का

वर्ग गज यानी 14.21 वर्ग मीटर, पूर्वः गली सं.13, राजगढ़ कॉलोनी, दिल्ली–110031 इसके अलावा हिस्सा (सेंट्रल बॉल कॉमन) उत्तर: मेन 9 / 1764, गली सं.9, राजगढ़ कॉलोनी, दिल्ली-110031 श्री विजय चौधरी— पलैट सं.1, एमआईजी, द्वितीय तल, फ्लैट सं.1, एमआईजी, द्वितीय तल, बिना इत के नॉट सं. डी—21, गंगा बिहार, ग्राम सदुल्लाहाबाद, परगना लोनी, अधिकार हे, वारं लड़ह, एक ड्राइंग / ड्राइनिंग स्म जिला गाजियाबाद, यूपी.-201102 इसके अलावा:फ्लैट सं.2, दो बेड रूम, दो शीवलय एक रसोई और दो बलकनी एमआईजी, द्वितीय तल, प्लॉट सं. छी—21, गंगा बिहार, ग्राम कुल कवर क्षेत्र 600 वर्ग बीट (83.61 वर्ग मीटर) जी सदुल्लाहाबाद, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, यूपी.—201102 हं. डी–21, "गंगा बिहार", हड़बस्ट ग्राम खदुलाबाद, इसके अलावा:75, हितीय तल, पॉकेट सं.—1, पश्चिमपुरी, पश्चिमी परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद.

दिल्ली, दिल्ली—110063 2. श्रीमती कविता चौधरी— फ्लैट सं. प्लैट सं.2, एमडाईजी, हितीय तल, बिना छत वे 1. एमडाईजी, हितीय तल, प्लॉट सं. डी—21, गंगा बिहार, ग्राम संदुल्लाहाबाद, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, यूपी.—201102 अधिकार के, दहिनी सद्दव, एक ब्राहंग/ इसके अलावाः पलैट सं. 2, एमआईजी, द्वितीय तल, प्लॉट सं. ब्राहनिंग सम् दो वेढ सम्, दो तीयालय, एक रसोई डी—21, गंगा बिहार, ग्राम सदुल्लाहोबाद, परगना लोनी, जिला और दो बतकनी कुल कवर क्षेत्र 900 वर्ग फीट (83.6) गाजियाबाद, यूपी.—201102 इसके अलावा: 75, द्वितीय तल वर्ग नीटर) प्लॉट सं. डी-21, "गंगा विहर्" गॅकेट सं.—1, पश्चिमपुरी, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली—110063 3. हडबस्ट ग्राम सादलाबाद, परगना और श्रीमती कल्पना चौधरी— 75, द्वितीय तल, पॉकेट सं. 1, तस्तील लोगी जिल गाजियाबाद. पश्चिमपुरी, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली—110063 4. मैसर्स हैबीटेक प्लॉट सं. डी–21 की सीमा: पूर्व सड़क 30 फीट इंफ्राबें वर्स प्राईवेट लिगिटेड-138, पॉकेट-ए, सेक्टर पी-4, वीडी, पश्चिमअना भूमे, उत्तर : प्लॉट स ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (यूपी) 201306 . **श्री विजय चौधरी**— फ्लेट सं.1, एमआईजी, तृतीय तल, प्लॉट <mark>फ्लैट सं.1</mark>, एमाईजी, तृतीव तल, एत के अधिकार व

तिथिः 18/08/2021, स्थान : नोएडा

डी-21, गंगा बिहार, ग्राम सदुल्लाहाबाद, परगना लोनी, साब बाएं सहद एक ब्रह्में / ब्रह्मिंग रूम दो बेंड र सि. छा—21, गर्गा विकार, जान राजुरसाव अलावाः फ्लैट सं.2, दो शीचाल्य एक रसेई और दो बालकर्नी कुल कवर क्षेत्र एमआईजी, तृतीय तल, प्लॉट सं. डी-21, गंगा बिहार, ग्राम सदुल्लाहाबाद, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, यूपी,-201102 900 वर्ग कीट (8361 वर्ग मीटर) अवसीय प्लॉट सं इसके अलावा:75, द्वितीय तल, पॉक्ट सं.-1, पश्चिमपुरी, पश्चिमी बै-21, "गंग बिहार", हड़बस्ट ग्राम नादुताबाद परगना दिल्ली, दिल्ली—110063 **२. श्रीमती कविता चौधरी**—पलैट सं.1, और तहसीत तोनी विता गवियाबदा एमआईजी, तृतीय तल, प्लॉट सं. डी-21, गंगा बिहार, ग्राम सदुल्लाहाबाद, प्रगना लोनी, जिला गाजियाबाद, यूपी.-201102 इसके अलावाःफ्लेट सं. 2. एमआईजी, तृतीय तल, प्लॉट सं. डी-21, गंगा बिहार, ग्राम सदुल्लाहाबाद, प्रगना लोनी, जिला शीवालय एक रसई और दो बातकनी कुन कर सेत्र गाजियाबाद, यूपी.-201102 इसके अलाया:75, द्वितीय तल 900 वर्ग फीट (83.61 वर्ग मीटर) अवसीव सीट सं गोजियाबाद, यूपा.—201102 इसक अलापात्रक, ब्रियाय पॉकेट सं.—1, पश्चिमपुरी, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली—110063 3. है-21, "गंगा बिहार", हडबस्ट ग्राम सादुताबाद, पराना श्रीमती कल्पना चौंघरी—75, द्वितीय तल, पॉकेट सं. 1. और वहसीत तोनी, जिता गजियाबद। प्लॉट सं. पश्चिमपुरी, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली—110063 4. मैसर्स हैबीटेक इंफाबेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड—138, पॉकेट—ए, सेक्टर पी—4, अन्य मृत्रि, उत्तर प्लॉट सं-20, दक्षिण प्लॉट सं डी-22

15.04.2021 ₹.18,91,831/ रुपए अठारह लाख 16.08.2021 इक्यानबे हजार आठ मी इकतीस केवल) 31.03.2021 तक

उसपर भाबी ब्याज व आकस्मिक व्यय लगातों सहित ऋण HSG/N/HEA/NOI/ 0216/0005

भाजपा की 'जन आशीर्वाद यात्रा' तीसरी लहर का निमंत्रणः राउत

मुंबई, 18 अगस्त (भाषा)। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बधवार को दावा किया कि भाजपा की 'जन आशीर्वाद यात्रा' तीसरी लहर का निमंत्रण है। विभिन्न राज्यों में केंद्रीय मंत्री यह यात्रा कर रहे हैं। राउत ने कहा कि उन्होंने भाजपा से धैर्य रखने को कहा है। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया, 'जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी लहर को निमंत्रण देना है। भाजपा यह जानबुझ कर रही है।'

अनुसूची । फार्म ए सार्वजनिक उद्घोषणा (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैष्ठिक समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 14 के अंतर्गत) क्लिक्स लोनस प्राईवेट लिमिटेड के डितधारको के ध्यानार्थ

कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम

कोंपीरेट व्यक्ति के गठन की तिथि प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति रजिस्टार ऑफ कंपनीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एण्ड कॉपोरेट पहचान संख्या कॉपॉरेट व्यक्ति का U65929DL2017PTC318354 कॉर्पोरेट व्यक्ति का पंजीकत कार्यालय का पंजीकृत कार्यालय : चौथा फ्लोर, कैलाश बिल्डिंग करत्त्रबा पता और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) गांधी मार्ग, क्नॉट प्लेस, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110001

कॉपोरेट व्यक्ति की परिसमापक प्रारंभ तिथि परिसमापक का नाम, पता, ई-मेला पता और टेलीफोन नंबर पंजीकरण संख्या आईबीबीआई पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00103/ 2017-18/10246 पता : डी-38, एलजीएफ (एल / एस), साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 पंजीकृत ईमेल आई ही के साथIBBI : ip.vineetchaudhary@gmail.com

8. दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितम्बर, 2021 एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि क्लिक्स लोनस प्राईवेट लिमिटेंड ने 14 अगरत, 2021 को स्वैच्छिक परिसमापन क्लिकस लोनस प्राईवेट लिमिटेड के सभी हितधारकों को उपरोक्त गद सं. 7 में वर्णित कार्यालय पते पर अपने दावों के प्रमाण परिसमापक के पास 13 सितम्बर, 2021 तक या उससे पूर्व जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता

वित्तीय सेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावे के प्रमाण भेजेगे अन्य सभी हिताबारक व्यक्तिगत, डाक द्वारा व इलेक्टानिक पद्धति से अपने दावे के प्रमाण भेज सकते है । दावों के झुठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

श्री विनित के. चौचरी IBBI पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246 ip.vineetchaudhary@gmail.com (आई बी बी आई के साथ पंजीकृत ई मेल आईदी) दिनांक : 18.08.2021 vi.clixloans@gmail.com (प्रक्रिया विशिष्ट ईमेल आई डी) आई बी बी आई में पंजीकृत दिवाला पेशेवर का पता स्थान : नई दिल्ली ढी-38, एलजीएफ (एल/एस), साकथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ के समक्ष

कंपनी याचिका सीपी (सीएए) सं.1/सीएचडी/

एचआरवाई / 2021 कंपनी आवेदन सीए (सीएए) सं.18/सीएचडी/ एचआरवाई / 2020 के साथ सम्बन्धित

कंपनीज (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 230-232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

निम्नलिखित के मध्य एकीकरण की योजना के मामले में:

अभिज्ञान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड CIN: U45201HR2005PTC082723, ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in, जिसका पंजीकृत कार्यालय मेजेनाइन तल, डीएलएफ गेटवे टावर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेस-III, गुरूग्राम-122002, (हरियाणा) में स्थित है।

...... याचिकाकर्ता सं.1/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 1

2. अभिराज रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड CIN: U45201HR2005PTC079995, ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in,

जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरा तल, डीएलएफ गेटवे टावर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेस-III, गुरूग्राम-122002, (हरियाणा) में स्थित है। याचिकाकर्ता सं.2/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 2

 बेनेडिक्ट एस्टेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड CIN: U45201HR2006PTC082725, ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in,

जिसका पंजीकृत कार्यालय मेजेनाइन तल, डीएलएफ गेटवे टावर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेस-III, गुरूग्राम-122002, (हरियाणा) में स्थित है।

...... याचिकाकर्ता सं.3/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 3

।. चक्रघारी एस्टेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

CIN: U45201HR2006PTC082726, ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in, जिसका पंजीकृत कार्यालय मेजेनाइन तल, डीएलएफ गेटवे टावर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेस-III, गुरूग्राम-122002, (हरियाणा) में स्थित है।

याचिकाकर्ता सं.4/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 4

 डीएलएफ गायत्री होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड CIN: U45201HR2006PTC086692, ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in, जिसका पंजीकृत कार्यालय मेजेनाइन तल, डीएलएफ गेटवे टावर, आर-ब्लॉक,

डीएलएफ सिटी, फेस-III, गुरूग्राम-122002, (हरियाणा) में स्थित है। याचिकाकर्ता सं.5/अंतरणकर्ता कंपनी सं. 5

लिजेबेथ बिल्डर्स एंड डेवपलर्स प्राइवेट लिमिटेड

CIN:U45201HR2006PTC082750, ई-中ल: Corporateaffairs@dlf.in, जिसका पंजीकृत कार्यालय मेजेनाइन तल, डीएलएफ गेटवे टावर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेस-III, गुरूग्राम-122002, (हरियाणा) में स्थित है।

.... याचिकाकर्ता सं.६/अंतरणकर्ता कंपनी सं. ६

. वीकर्मा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

CIN: U70100HR2006PTC084784, ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in, जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, डीएलएफ गेटवेट टावर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेस-III, गुरूग्राम- 122 002, (हरियाणा) में स्थित है।

...... याचिकाकर्ता सं.७ / अंतरणकर्ता कंपनी सं. ७

 वीकर्मा कैपिटल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड CIN: U70100HR2006PTC084783, ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in,

जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, डीएलएफ गेटवेट टावर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेस -III, गुरूग्राम- 122 002, (हरियाणा) में स्थित है। याचिकाकर्ता सं.८/अंतरणकर्ता कंपनी सं. ८

 डीएलएफ रेसीडेंशियल पार्टनर्स लिमिटेड CIN: U45400HR2008PLC075615, ई-मेल: Corporateaffairs@dlf.in,

जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरा तल, डीएलएफ गेटवे टावर, आर-ब्लॉक, डीएलएफ सिटी, फेस-III, गुरूग्राम-122002, (हरियाणा) में स्थित है। याचिकाकर्ता सं. 9/अंतरिती कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 230-232 के अधीन 1) अभिज्ञान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और 2) अभिराज रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और 3) बेनेडिक्ट एस्टेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और 4) चक्रधारी एस्टेट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और 5) डीएलएफ गायत्री होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और 6) लिजेबेथ बिल्डर्स एंड डेवपलर्स प्राइवेट लिमिटेड और 7) वीकर्मा कैपिटल इन्वेटमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और 8) वीकर्मा कैपिटल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ("अंतरणकर्ता कंपनियां) का डीएलएफ रेजीडेंशियल पार्टनर्स लिमिटेड ("अंतरिती कंपनी") के साथ समामेलन की योजना की स्वीकृति के लिए याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा 18.01.2021 को याचिका प्रस्तृत की गई थी, जिसकी सुनवाई की गई और माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा 06.08.2021 को आदेश की घोषणा कर दी गई। उक्त याचिका अब माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष 29.10.2021 को प्रातः 10.30 बजे सुनवाई हेतु निर्धारित की गई है। उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास, अपने आशय की सूचना, उसके द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता से हस्ताक्षरित, साथ में अपना नाम और पता प्रेषित करना चाहिए जो कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास, अधिकतम याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले तक, अवश्य पहुंच जाना चाहिए। जहां कहीं, वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध का आधार अथवा अपने शपथ पत्र की एक प्रति ऐसे नोटिस के साथ प्रेषित की जाएगी। याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके मांगे जाने पर इसके लिए निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर प्रेषित की

दिनांक : 18.08.2021

प्रवीण गप्ता याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए अधिवक्ता आवास नं. 2315, सेक्टर 38-सी,

मोबा. नं. 98155-26655, ई-मेल: pkgadvocate@rediffmail.com

www.readwhere.com

दिनांक : 18 अगस्त, 2021

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी